

PCL/SE/9/2023

11.09.2023

The Corporate Relationship Department

The Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400 001

The General Manager- Listing

National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex,

Bandra (East),

Mumbai-400 051

Symbol/Scrip Code: (BSE)530555/(NSE) PARACABLES

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of an advertisement by the Company in compliance of MCA Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, after completion of dispatch i.e., sending of emails of Notice of the ensuing Annual General Meeting (AGM) together with the Annual Report to all the Members of the Company. The Company published the advertisement in the following newspapers.

- 1. Financial Express in English Language on 08.09.2023
- 2. Jansatta in Hindi Language on 08.09.2023.

This is for the information of the exchange and the members.

Thanking you

For Paramount Communications Limited

Rashi Goe

Compliance Company Secretary

Paramount Communications Ltd
Paramount House
KH - 433, Maulsari Avenue,
Westend Greens, Rangpurl,
New Delhi - 110037, India
t : +91 11 45618800
pcl@paramountcables.com
www.paramountcables.com
CIN: L74899DL1994PLC061295

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Zeal Global Services Limited (formerly Zeal Global Services Private Limited) CIN: LI74950DL2014PLC264849; Ph. No: 011-41444063 E-mail: cs@zeal-global.com; Website: www.zeal-global.com Regd. Off: A-261-262, C3rd Floor, Street No-06, Matripat Pur Extension, New Delhi-110037

Notice is here by given that 10th Annual General Meeting (the AGM) of the Company will be convened on Friday, September 29, 2023, at 04:00 P.M. (IST) through videoconferencing (VC)/of her audio visual means (OAVM). AGM is proposed to be conducted through VC/OAVM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Regulements) Regulations , 2015 to transact the Ordinary and Special Business, set out in the Notice of the 10th AGM without the physical presence of the members at a common venue.

Interms of provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Saturday , 23th September 2023 to Finday, 29th Seiptember 2023 (Both days inclusive) for the purpose of AGM.

The 10th AGM Notice & Annual Report has been sent in electronic mode on 07th September 2023 to the members whose email of slare available in the Company's records. The Notice of AGM as well as Annual Report is also available on our website at www.zeal-global.com, on the website of Stock Exchangerie, www.nsernda.com. The Company is pleased to provide all its members the facility to exercise their votes in respect of all the proposed businesses as numerated in the Notice to be trainsacted at the AGM through remote e-voting facility provided by NSDL. The members are requested to note that e-voting shall commence on Tuesday, 26.09.2023 (09:00 A.M.) and ends on Thursday, 28.09.2023 (05:00 P.M.) please note that le-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Please visit https://www.evoting.nadi.com.to.cast.your.vote.through.e-voting.system.

A person whose name appears in the Register of members/beneficial owners as onclui-off date i.e. 22nd September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. The members who are holdings hares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through remote e-voting system during the meeting. Please refer instructions enumerated in the AGM Notice in this regard. If any shareholders have not registered their emailed, please contact the Company Secretary or RTA for the same.

Any person who becomes member of the company after dissemination of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User-ID and password by sending a request at evoting@nsdi.co.in. The voting process at the AGM venue will be conducted throughe-voting process. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast his/her e-voting again in the meeting.

A member may request the Company for the Copy of the Annual Report, if so required. Any query or greyances in relation to voting by electronic means may be addressed to the Name: Mrs. Monal Gupta, Designation:- Company Secretary cum Compliance Officer, Address A 261-262, 03th Roor, Street No.06, Mahipal Pur Extension, New Dethi 1 10037 email id: cs@zeal-global.com, Ph:011-41444063

> For Zeal Global Services Limited (formerly Zeal Global Services Private Limited)

Monal Gupta Place: New Delhi Company Secretary Date: 08.09.2023 Membership Number: A29974



RattanIndia Power Limited (CIN: L40102DL2007PLC169082)

Registered Office: A-49, Ground Floor Road No. 4, Mahipalpur New Delhi 110037 Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777 Website: www.rattanindiapower.com, E-mail: ir_rpl@rattanindia.com

NOTICE OF 16™ ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 16" Annual General Meeting ("AGM") of RattanIndia Power Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 2:30 P.M. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means (OAVM) facility without the physical presence of the shareholders at a common place, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder read with Genera Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular no. 20/2021 dated December 08, 2021, 3/2022 dated May 05, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 read ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the businesses set out in the Notice dated Wednesday, September 06, 2023 calling AGM. The deemed venue for the proceedings of AGM shall be the registered office of the Company. Members intending to attend the AGM, may follow the procedures prescribed in the Notice of the 16" AGM.

The Company has, in compliance with MCA Circular and SEBI circular, sent the Notice convening the AGM and the Annual Report for the FY 2022-23, on Thursday, September 07, 2023, through electronic mode to those members whose e-mail address is registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA)/Depository Participants as on cut-off date i.e. Friday, September 01, 2023. The dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report has also been Completed on Thursday, September 07, 2023.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulation), the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Limited ("KFin"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered Friday, September 22, 2023, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders holding shares either in physical or dematerialization form, to cast their right to vote electronically on the business set out in the Notice. The procedure/instructions for electronic voting, including the process for obtaining the Login credentials for those shareholders whose e-mails are not registered either with the Company/RTA or their

respective DPs, is contained in the Notice of AGM

Notice of AGM.

financialexp.epapr.in

The Notice of AGM and Annual Report, along with all the documents referred to therein, is available on the Company's website www.rattanindiapower.com and also at https://evoting.kfintech.com (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting) and also on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The remote e-voting period will commence on Tuesday, September 26, 2023 (10:00 A.M. IST) and end on Thursday, September 28, 2023 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to evoting@kfintech.com. The Members present through VC/OAVM and had not cast their votes through remote e-voting facility and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM, but shall not be allowed to cast their vote again. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the

The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal & Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process (both remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair and transparent manner.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 42 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, KFin Technologies Limited at evoting@kfin.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Limited, (Unit: RattanIndia Power Limited) Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll Free No. 1800-345-4001.

For RattanIndia Power Limited

Lalit Narayan Mathpati Place: New Delhi Date: 07.09:2023

Company Secretary

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

INONGEL INOX LEASING AND FINANCE LIMITED

Regd. Office: INOXGFL Group, 612-618, Narain Manzil, 6th Floor, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001. CIN: U65910DL1995PLC397847

E-mail: inoxgroup@gfl.co.in; Website:www.ilfl.co.in NOTICE OF the 28th ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING DETAILS**

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 11.00 A.M. at 612-618, Narain Manzil, 6th Floor, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 to transact the business as set out in the Notice dated 28th August, 2023. Notice of the AGM along with the Annual Report has been dispatched by Speed Post on 05th September, 2023 and electronically on 06th September, 2023 to all the members who have registered their e mail addresses with the company/

The Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 is also available on the company's website ilfl.co.in.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 2310 September, 2023 to 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013. read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, the Company is providing e-voting facility to its members.

The details of e-voting, are given hereunder:

Wednesday, 27th September, Commencement of remote e-voting 2023 at 9:00 am (IST) Friday, 29th September, 2023 End of remote e-voting Cut off date for

at 5:00 pm IST) Thursday, 21st September, 2023

determining the eligibility for E-voting Electronic Voting

Depository Participants.

230828028 Sequence Number (EVSN)

Members holding shares either in physical form or in demat form, as on the cut-off date i.e 21st September, 2023, shall only be entitled to vote on the resolutions as set out in the Notice of the AGM. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 05.00 p.m. on 29th September, 2023. Once the votes on a resolution are cast by the Members, no change will be allowed subsequently. Only the Members who have not casted their votes through remote e-voting may cast their votes during the AGM by attending the AGM.

In case of any queries regarding e-voting, members may refer the frequently asked questions (FAQ's) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under Help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Updation of KYC Details

Members who have not registered their KYC Details with the company are requested to update their PAN, Address, E mail ID's, Bank Account and Nomination details etc. with the company at the earliest.

For Inox Leasing and Finance Limited

D.K. Jain Place: New Delhi Director Date: 08th September, 2023 DIN: 00029782

Paramount Communications Ltd. CIN: L74899DL1994PLC051295 Regd. Office: KH-433, Maulsari Avenue,

Ph.: 011-45618800, Fax: 011-25893719-20

PARAMOUNT Westend Greens, Rangpuri, New Delhi-110037

E-mail: pcl @ paramount cables.com, We batte: www.paramount cables.com NOTICE OF 29" ANNUAL GENERAL MEETING OF PARAMOUNT COMMUNICATIONS LIMITED TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING)/OAVM (OTHER AUDIO-VISUAL MEANS)

Notice is here by given that: the 29th Annual General meeting ('AGM') of the Members of Paramount Communications Limited is scheduled to be held on Thursday, the 28" September, 2023 at 11.30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM") in compliance with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 respectively followed by General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and "SEBI" Circular No. SEBI/ HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM. The Company's Registered office i.e., KH-433, Maulsari Avenue, Westend Greens, Rangpuri, New Delhi-110037 will be considered as venue for the purpose of AGM.

In compliance with the above circulars, Notice of Annual General Meeting, Directors' Report, Auditors' Report and Financial Statement for the year ended March 31, 2023 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered/available with the Company/RTA /Depository. The Date of completion of sending email of Notice of the AGM along with the Annual Report to the shareholders was September 06, 2023.

In case you have not registered your email ID with the Company/ RTA/Depository, please follow below instructions to register your email id for obtaining annual report for FY 2022-23 and login details for e-voting.

Shareholders are requested to Register/update their details in their Holdings | demat account as perthe process advised by Depository Participant

Physical Shareholders are requested to furnish their email ids, mobile numbers, bank account details for the purpose of 29th Annual General Meeting of the Company and/or other details in Form-ISR-1 and other relevant forms prescribed by SEBI with the Company's

update your particulars timely.

Registrar and transfer Agent, M/s Link Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights , 1° Floor, Plot No. NH-2, C-1 Black, LSC, Janakpuri, New Delhi-110058, Tel: 011-41410592/93/94, Telefax: 011-41410591, Email Id: kyc@linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in. Relevant forms prescribed by SEBI in this regard are available on the website of the RTA at www.linkintime.co.in under Investor Service-KYC Compliance and also available on the website of the Company at www.paramountcables.com/updates for information and use by the shareholders. You are requested to kindly note the same and

 In campliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of the RTA i.e., Link Intime India Private Limited for providing e-voting facility to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Monday, September 25, 2023 (09:00 am) and ends on Wednesday, September 27, 2023 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyand the said date and time. The remate e-vating madule shall be disabled for voting thereafter. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e., September 21, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in.

Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not entitled to cast their vote again. Abhishek Mittal & Associates, Practicing Company Secretary (Membership No. F7273 & CP No. 7943) has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the Notes annexed to the Notice of the AGM.

Helpdesk: Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode: In case shareholders/ members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e., NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below: Helpdesk details

holding securities in contact NSDL helpdesk by sending a request at demat mode with NSDL evoting@nsdl.co.in or call at : 022 - 4886 7000 and 022-24997000 Individual Shareholders Members facing any technical issue in login can holding securities in contact CDSL helpdesk by sending a request at

Individual Shareholders Members facing any technical issue in login can

Heladesk for Individual Shareholders holding securities in physical mode: Shareholders facing any technical issue in login may contact Link Intime INSTAVOTE helpdesk by sending a request at enotices@linkintime.co.in or cantaction: - Tel: 022-4918 6000.

demat mode with CDSL helpdesk evoting@cdslindia.com or contact at toll

free na. 1800 2255 33

Pursuant to Section 91 of the companies Act, 2013 and rules made thereunder, read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclasure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 22rd September, 2023 to Thursday, 28rd September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website, at www.paramountcables.com, websites of the stock exchanges (NSE & BSE) and on the Link Intime website Instavate-Linkintime For Paramount Communications Limited

Date: 07th September, 2023 Rashi Goel Place: New Delhi Compliance Officer & Company Secretary



STATE BANK OF INDIA

SME Centre, 65, Neelam Bata Road, Faridabad (15651)

Sh. Ramchander - 39206803531

POSSESSION NOTICE

[Under Rule 8(1) of SARFAESI Act 2002] For Movable Property Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 17-03-2023 calling upon the Borrower Mr. Ram Chander S/o Shree Parbhu, House No. U-245, Bhagat Singh Colony. NH-5, NIT Faridabad-121001, Haryana to repay the amount mentioned in the notice being of Rs. 20,24,062/- (Rupees Twenty Lacs Twenty Four Thousand Sixty Two only) and other charges as on 17/03/2023 and interest from 17/03/2023 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 04th Day of September, 2023. The Borrower/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower

with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India for an amount of this notice. Your outstanding liabilities (in aggregate) due and owing to the Bank is in the sum of Rs. 20,24,062/- (Rupees Twenty Lacs Twenty Four Thousand Sixty Two only) as on and other charges as on 17/03/2023 costs, etc, thereon.

Description of the Vehicle

Motor Vehicle- Body Type - Tata Motors, Model No.- Tata LPT1512CRX48WB BS IV Chasis No. - MAT544066L7A01480, Engine No. - 497TC41AZX802582, Registration No. HR38AB4235

Date: 08.09.2023 **Authorized Officer** Place: Faridaabd State Bank of India

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED ADITYA BIRLA

Registered Office-Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat – 362266 Branch Office-City Centre 832-835, Opposite I.B. College, G.T. Road, Panipat, Haryana , 132103 APPENDIX IV [See Rule 8 | 1 | of the Security Interest | Enforcement | Rules , 2002]

Possession Notice (for immovable Property) Whereas the undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securifization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rule 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 had issued a Demand notice dated 20-06-2023 calling upon the borrowers Jagminder| In The Capacity Of Available Legal Heir Of Late Vikash), Pushpalin The Capacity Of Available Legal Heir Of Late Vikash), Jagminder, Pushpathe amount mentioned in the notice being of Rs.6,30,1824 (Rupees Six Lakh Thirty Thousand One Hundred Eighty Two Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act, read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 05th Day of September of the year, 2023.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditva Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs.6,30,1824 (Rupees Six Lakh Thirty Thousand One Hundred Eighty Two Only) and interest thereon. Borrowers attention is invited to the provisions of Sub-section 8 of Section 13 of the Act... in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY All That Piece And Parcel Of Plot Measuring 50 Sq. Yds., 01 Maria 6 Sarsai Being

15/2286 Share Out Of Land Measuring 12 Kanal 14 Maria Comprised In Rect. No.1 Killa. No. 6/1 [3-8], 15/2[3-6], 16/1 [3-12], 25/1/2[1-7], 11/1 [1-1], Situated At Mouza Malik Ugra. Kheri, Tehsil & Disrict: Panipat, Haryana-132103. Date: 05/09/2023 Authorised Officer

Place: Panipat Aditya Birla Housing Finance Limited

RattanIndia

RattanIndia Enterprises Limited (CIN: L74110DL2010PLC210263)

Registered Office: 5th Floor, Tower-B, Worldmark 1 Aerocity New Delhi -110037, Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777 Website: www.rattanindia.com, E-mail: rel@rattanindia.com

NOTICE OF 13" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 13" Annual General Meeting ("AGM") of RattanIndia Enterprises Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 04:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means (OAVM) facility without the physical presence of the shareholders at a common place, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder read with General Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular no. 20/2021 dated December 08, 2021, 3/2022 dated May 05, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 read ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the businesses set out in the Notice dated Wednesday, September 06, 2023 calling AGM. The deemed venue for the proceedings of AGM shall be the registered office of the Company. Members intending to attend the AGM, may follow the procedures prescribed in the Notice of the 13" AGM.

The Company has, in compliance with MCA Circular and SEBI circular, sent the Notice convening the AGM and the Annual Report for the FY 2022-23, on Thursday, September 07, 2023, through electronic mode to those members whose e-mail address is registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA)/Depository Participants as on cut-off date i.e. Friday, September 01, 2023. The dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report has also been Completed on Thursday, September 07, 2023.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulation), the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Limited ("KFin"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered Friday, September 22, 2023, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders holding shares either in physical or dematerialization form, to cast their right to vote electronically on the business set out in the Notice. The procedure/instructions for electronic voting, including the process for obtaining the Login credentials for those shareholders whose e-mails are not registered either with the Company/RTA or their respective DPs, is contained in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and Annual Report, along with all the documents referred to therein, is available on the Company's website www.rattanindia.com and also at https://evoting.kfintech.com (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting) and also on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The remote e-voting period will commence on Tuesday, September 26, 2023 (10:00 A.M. IST) and end on Thursday, September 28, 2023 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to evoting@kfintech.com. The Members present through VC/OAVM and had not cast their votes through remote e-voting facility and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM, but shall not be allowed to cast their vote again. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of AGM.

The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal & Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process (both remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair and transparent manner.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 42 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, KFin Technologies Limited at evoting@kfin.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Limited, (Unit: RattanIndia Enterprises Limited), Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll Free No. 1800-345-4001.

Place: New Delhi

Date: 07.09.2023

For RattanIndia Enterprises Limited Rajesh Arora

Company Secretary



STATE BANK OF INDIA

SME Centre, 65, Neelam Bata Road Faridabad (15651) Mr. Rinku - 39220341306

[Rule 8(1) Possession Notice (For movable Property) Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India under

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 17-03-2023 calling upon the Borrower Mr. Rinku S/o Mr. Chatur Singh, House No. 517, 45 Feet Road, Bharat Colony, Kheri Kalan, Faridabad 121002 Haryana to repay the amount mentioned in the notice being of Rs. 19,14,681/- (Rupees Nineteen Lacs Fourteen Thousand Six Hundred Eighty One only) as on 17/03/2023 and other charges and interest from 17/03/2023 within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Guarantor

and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 4th Day of September of the year 2023. The Borrower/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India

for an amount of this notice., Your outstanding liabilities (in aggregate) due and owing to the Bank is in the sum of Rs. 19,14,681/- (Rupees Nineteen Lacs Fourteen Thousand Six Hundred Eighty One only) as on 17/03/2023 and other charges, costs, etc. thereon. Description of the Vehicle

Motor Vehicle - Body Type - Tata Motors Ltd, Model Name - Ultra 1412497CR/45WB,

Chasis No. MAT767152L7B03207, Engine No. 497TC41BZX8061303975, Regn No.

Date: 08.09.2023 **Authorized Officer** Place: Faridabad State Bank of India

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao TATA Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CIN No. U67190MH2008PLC187552

(As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The borrower, having falled to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules. The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with

the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA Capital Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the

Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Account	/Legal Heir(s)/	& Date of	Date
No.	Legal Representative(s)	Demand Notice	
9674528	Mr. Ramit Garg (as Borrower) and Mrs. Meenu Garg and Goodwill Iron and Steel Traders Private Limited through its Director (as Co-Borrower)	Rs. 1,10,82,576/- (Rupees One Crore Ten Lakh Eighty Two Thousand Five Hundred Seventy Six Only) outstanding as on 24/12/2022	04.09.2023

Wazirpura and Mewka, SARE Homes, Sector 92 Gurgaon 122001 (Harvana) Admeasuring Approx. 206.8 Sq. Mtrs./2226 Sq. ft. and all common amenities under flat buyer agreement. DATE :- 08-09-2023. Sd/- Authorised Officer For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

Residential Flat No. 603 Building No. P-02, 6th Floor, in "Crescent ParC Petioles" Village

ICICI Bank

Registered Office: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara - 390007, Gujarat

Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051, Maharashtra

Branch Relocation Notice On Behalf of ICICI Bank Ltd., New Delhi-Bhogal Branch

Dear Customers.

we are relocating to a more convenient location. The address of the new location is as mentioned below: New Location: ICICI Bank Ltd., 25-A, Hospital Road, Jangpura, New Delhi -110014.

This is to intimate you that with effect from November 8, 2023,

There would be no change in your Account Number or the security items issued to you.

The following guidelines are applicable for customers holding

lockers with our New Delhi-Bhogal Branch. In the process of relocating our branch, we will also be relocating the safe deposit lockers to the address, as specified above. The shifting of the locker units will begin on November 6, 2023 and

In case you wish to continue to operate your locker at the new location, we request you to empty your locker and take charge of its contents. Please do so before November 6, 2023. You may replace them at the new location, anytime, during banking hours

they will be installed at the new location on November 8, 2023.

after November 8, 2023, at your convenience. In case you are unable to empty your locker, we shall have to move the locker units, along with its content. The locker units will be moved under proper supervision and every precaution will be taken to handle them carefully.

Assuring you of the best services, at all times.

Sincerely,

Branch Manager, New Delhi-Bhogal Branch

SUNEHARI EXPORTS (HARIDWAR) LIMITED CIN: U36102DL2009 PLC188045

Regd Office: Bit/E-24, Mohain Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Deth- 110 044 Tel.No. 91-11-41679238, E-mail: sunehaii@sunehaii.com INFORMATION REGARDING 14th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONDERENCING (VC)/ O

THER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the Combany will se held on Saturday, 30th September, 2023 at 04:00 P.M. through Video Conferencing VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) ONLY, to transact the pusiness set out in the Notice of the AGM. In accordance with General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs beaining 4/2023 diated 5th January 2023 read with Circular No. 2/2022 dated 5th May, 2022, Gricular No. 21/2021 dated 14th December 2021, Gricular No. 19/2021 dated 8th December, 2021, Gircular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and Circular No. 20/2020. dated 5th May 2020 and allowing conducting of AGM through Video conferencing (VC). or other Audio-Visual Means (OVAM) without the physical Presence of the inemper of the meeting at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC/ QAVM. faighty only. Members participating through the VC/ QAV Mifacility shall be reckoned for

the purpose of guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Incompliance with the relevant dircular, the Notice of AGM and the Annual Report 2022-23 including the financial state ments for the financial year 2022-23, along with Directors. Report, Auditors. Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by email to all the Members of the Combany whose email addresses are registered. with the Company/ Depositary Participant(s). The aforesaid documents will also be made. available on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com.

The members holding shares as on Saturday, 23th September, 2023 including those who will not receive electronic copy of the annual report due to non-availability of their email. address with the company can exercise their right to vote by following the instructions that will be given in the AGM notice. Manner of casting vote(s) through e-voting.

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the pusiness as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system (e-voting).

The manner of voting remotely (fremote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses will be provided in the Notice of the AGM. The facility for e-voting will also be made available at AGM and Members attending

the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to.

members through e-mail. The same login credential may also be used for afterding the AGM through VC/

follow below instructions for obtaining the Annual Report and loginum details for joining the AGM/ exercising e-voting facility: a) Physical holding: blease send scan copy of a signed request letter mentioning your Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and backt, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned

In case you have not registered your e-mail address with the Company/ Depository, blease.

copy of Aadhar Card), by e-mail to the Company's e-mail address at sunehari@sunehari.com or to the email id of MAS Services Limited - Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company at mas_serv@yahoo.com. Demat holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP.

Company is not declaring any dividend. d) Share holders holding shares in the physical form are required to convert their holding in DEMAT form as transfer of shares in physical form has been prohibited by the

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM. and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote. evoting or through e-voting during the AGM.

> For and behalf of the Board For Sunehari Exports (Haridwar) Ltd

> > Vijay Prakash Pathak Whale Time Director, DIN: 07081958

Place: New Delhi

Date: 03.09.2023

New Delhi

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)

PLACE:- DELHI

एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 25, शी-वर्गक सामुदायिक लेड, जनकपूरे, नई दिल्ली 110088 वेबसाइट: http://www.spacapital.com/CapitalServices/, सीआईएन: L659100L1984PLC018749 फोन att-45675500 ई-मेल आईडी listing@spacapital.com

39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

सिर्वबर, 2023 को जात. 11:00 सहै, नीटिस में निर्देश्त किए अनुसार आवसाविक सेनदेन करने के लिए आसंस्थित की

क्षेत्रके हैं होन कर्मी सहस्रों की वाहीएक की निर्देश में सामित हासिक दियोर्ट क्षेत्रण का करन व विराध 2005 की पत कर अर्थित और में सकता में एक्स्परिएए / बीटीएक्स्म से अपनाओर कर दिए गए हैं (इनेस्ट्रॉनिक अप से डीवेट एसीएक मंदिस और व्यक्ति निर्देश को कंपनी की वेबसाइट http://www.spacapital.com/CapitalServices/ घर प्रदर्शित किया गया है और ने मंगनी में पंजीवृत्त कार्यालय में परिवाद और सार्वजनिक आस्तात की प्रोडकर सभी कार्य विकास पर प्राप्त २१ करों से प्रेपाल ५ करों तक एप्रीएम की रातीय एक स्पानी द्वारा निरोक्ता करने से शिए सी प्रपत्न

कारणे अधिनिधम, 2013 की दाल पर में सारपतित कारणे देखाल और प्रशासन) निधमाधारी, 2014 में निधम 10 और संबी (कुक्तिबद्धाः प्रात्तिक प्रकटीकरण जानकाकरारी) विभिन्नाम २०१५ से विभिन्न ४५ के अनुसार, सन्तिहर, ५० पिरांबर, २०२३ को कार्याधिक की जाने वाली कांग्ली की एजीएम के जोड़प हेलू सदस्यों का पंपितंदर और शेवन ट्रांसपन बूक्स प्रतिशत, 24 Photos: 2023 of arthurs: 30 Photos: 2023 (Idvil fibr arthubus II) now air obt i

कांकी अधिनिक्त, 2013 की बात 108 में प्राथमानों में सामंदित कांकी (प्रवास और प्रशासन) निकामाओं, 2014 में निकास . 20 और फेरी (स्ट्रीक्सूल प्राधिक और प्रकारिकरण अवस्थाकरण) वितियक्त, 1935 की वितियत 44 के अनुसारत में, west at 400 it fifte sell useful us called 50th f-4000 andres see a aftitus field are क्यान में हातेबहानिक क्या में सीट आजने की खेतिया प्रदान की गई है. दिख्यके विश्व कामी ने ई-वीटिंग एउँची में क्या ने शीर्वाएकपात की संबाद प्रत्य की हैं। इसके व्यक्तिका, एजीएम में मानपा से मानपाम से मानपाम बाराने और सुनिधा में कारकार सोगी । जिल सदस्यों ने एजीएन के कार्यायल से पहले ही विभीत ई-मोर्टिंग के माध्यम से अपना बोट उटक दिया है ये की प्रातिष्य में क्षात्रिक को शतकों हैं, वेकिन प्रनी एकीएम में क्षाना बीठ वातने वह तक नहीं शोग । रिसेट ई-वोटिन की and ware 27 String 2023 of the sign will breifte completely open than upone, 20 Brew 2023 of मांच 5.00 को (पाशीय समाप्नाप) समान हो आएमी : इस अवधि से दौरान, मंगनी से जिन सारायों से पास सीवार, 24 विकास, 2022 भी अधिन विवेद कम नीतिक वह दीमहेटियालहान्य पाद में कंपन सबे हैं, वे प्रतंपहरित्व मानवा से अवने बीट बाज सकते हैं। सदस्यापर बाज हैं, कि मुक्ताप, 29 जिलंबर, 2023 की बांच 100 बात की के बाद वर्गी दिसीट पूँ-वीटिंग भी अनुनरीते नहीं दी आएगी।

ई-वर्तित के लक्त में कियों नो विकास के मामले में, सदस्य 'सदस्यों के तिए अवसर पूर्व जाने वाले अपनी हरूपएकडूं' और समामा अनुसार के तारा www.evotingindia.co.in पर स्थानका अ-सोटिंग पूजर मैनुवात का संदर्ध जेकर vision are see each if in field any exclusion it fire helpdesk evoting@cdslindia.com in \$900

विस्तानक मा क्षेत्रकी को इंसेन listing@spacapital.com पर सर्वर्त करें। ई-वॉटिंग के मर्टाचे वाननी की एजीएम में या जसके बाद धोषित किए जाएंगे और कानी / आस्टीए / एक्समेज की peads or orner real make i

> Etch / सदीप परवाल.

दीवाईएन ०००२५८०३

स्थान नई दिल्ही ज्ञानका राह प्रबंध निदेशक दिनाकः 07-09-2023

> त्रिदेव इन्फ्राइस्टेट्स लिमिटेड (CIN: L65100DL1988PLC033812)

पंजी. कार्याः एस-524, एफ/एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, शकस्पुर, दिल्ली-110092 आईएन

त्रिदेश इन्फ्राइस्टेट्स लिमिटेड के सदस्यों की 42वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 9.35 बजे पूर्वा. में एस-524, 1 ला तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली–110092 में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सूचना जो शुक्रवार, 1 सितम्बर, 2023 को पंजी. में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी गई है, में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्मनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 से शनिवार, 30

सितम्बर, २०२३ (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। अधिनियम की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के यिम 20 तथा साधारण सभा पर सचिवालयी मानक के मानक-2 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कंपनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः बुधवार, 27 सितम्बर, 2023

रिमोट ई-बोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023

मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार

एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा

उपलब्ध कराई जाएगी जो सदस्य रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं. वे भी सभा में उपस्थिति हो

सकते हैं, लेकिन सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। • एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.abhinavleasefinltd.in तथा

सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा ई-बोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं।

त्रिदेश इन्फ्राइस्टेट्स लिमिटेड के लिए

तिथि: 6.9.2023 सुनील कुमार अगरवाल स्थानः दिल्ली प्रबंध निदेशक

INONGEL आईनॉक्स लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड र्राजः कार्यासयः काईनॉक्सजीएफएस ग्रुपः ११2-११ ह नारायण मेजिल, 6वीं मेजिल, 28, बाराखंबा रोख, नई विस्ली--110001. सीठाईएनः युक्का०कीएला अक्षपीएलसीअन् का ई-मेल: inaxgroup@gllca.in; वेदसङ्घट www.ilfl.co.in

28वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-बोटिंग विवरण की की सूचना एतदहारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैटक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11.00 बजे, स्थान 612-618, नारायण मंजिल, 6वीं मंजिल, 23, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 में दिनांक 28 अगस्त, 2023 के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 05 सितंबर, 2023 को स्पीड पोस्ट द्वारा और 06 सितंबर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं।

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पसिसण्बवण्पद पर भी उपलब्ध है।

इसके अलावा यह भी अधिसूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें 23 सितंबर, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक (दोनों दिन सम्मिलित) तक वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए से बंद रहेंगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सविधा प्रदान कर रही है।

ई-वोटिंग का विवरण नीचे दिया गया है:

रिमोट ई-वोटिंग की मुख्यात बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को प्रात: 900 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समारित शुक्रवार, २९ सितंबर, २०२३ को शाम ५०० बजे (भामास)

ई योटिंग के लिए पात्रता गुरूवार, 21 सितम्बर 2023 निर्वास्ति करने की अंतिम तिथि

इलेक्ट्रॉनिक योटिंग अनुक्रम

230626028

कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितबर, 2023 को भौतिक रूप मे या डीमैट रूप मे शेयर रखने वाले सदस्य केवल एजीएम के नोटिस में निर्घारित प्रस्तावों पर वोट देने के हकदार होगे । रिमोट ई-वोटिंग मॉडचूल 29 सितबर, 2023 को शाम 05.00 बजे के बाद सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्यो द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वे सदस्य जिन्होंने रिपोट ई-वोटिंग के पाध्यप से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में माग लेकर एजीएम के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं।

पर सदस्य सहायता अनुमाग के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं।

जिन सदस्यों ने कपनी के साथ अपना केवाईसी विवरण पजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे जरूद से जरूद कपनी के साथ अपना पैन, पता, ई-पेल आईडी, बैक खाता और नामाकन विवरण आदि अद्यतन करे।

कृते आईनॉक्स लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

दिनांकः 08 सितंबर, 2023

निवंशक स्थान : इस्याणा सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यांतयः बी१/20. सेक्टर-18. नोक्टा. गौतमपुरः नगर, उत्तर प्रवेश- 201801 सीवाईएन नं; L25201UP1992PLC018150, कुरमाम नं; +64 64477 72616 वेबसाइट www.sudev.co.in, ई-बेल: info@sudev.co.in

वार्षिक आम बैठक और बुक बंद करने की सूचना

सुदेव इंडस्ट्रीय लिपिटेड के सदस्यों की **अपनी व्यक्तिक माम मैठक पुरुवार, 25 मिरांगर 2023 को** स्थान **१५३० नये इसेन्द्र निरू** माध्यम **/विकिये क्लिकेंसिन (रीनी) के** माध्यम से आधीरित से ने वाली है। अपने एवीएन की सुधन। सहित कित वर्ष 2022–23 की कार्यिक रिवोर्ट की इसेक्ट्रॉनिक प्रतिवां उन सभी सदस्वां को भेज दी गई। हैंजि:बेंने डिवॉजिटरे पा रुवनी रहे साथ अवनी इंग्ल आईडी वंजीरूत की हैं। यह विवरन रुवनी की वेबसाइट www.sudev.co.in 97 H 3984 \$1

कुरु कंडी एतद्वारा मोटिस दिया गया है कि रूपनी अधिनियम् आधार की धाव द्वा और सेवी (सुरीक्ट्रता दायिस्य और वकटीकरन अवश्वकताएँ। विभिन्न 2015 के विभिन्न 42 के अनुसार कंपनी के सदस्में का रजिस्टर और रोगर द्वांसकर कुर वर्षिक अन् बैठक अवोजित करने के उदेश्व से **स्वनिवार, 23 निवांनर 2023 में मुख्यार, 26 निवांनर 2023 (दोनों** ⊱ पत्रदान । कंपनी (प्रकार और प्रशासन) निष्मुशाध के निष्मुशा और सेवी (स्वीवज्ञत दापिल और प्रकटीक रूप

आवश्यकताएँ), विनिधन् २०१५ के विनिधनन क्य के साथ प्रक्रित कंपनी अधिनिधन् २०१३ की भारा १०३ के प्रावधानों के अनुसार, रूपेवी अपने सदस्यों को इसेक्ट्रॉनिक पाध्यप (रिपोट ई—बेटिंग) द्वारा आबी एजीएप में पराखान करने के उनकी अभिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और सेंट्रल डिवॉफिटरी सर्विसेज लिपिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-बोर्टिंग सेवाओं के मध्यप से केटक में कार्यवर्त निज्यादित किया जा सकता है। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है 👽 एजीएन की सुधना में निधारित कार्यवाही को इसेक्ट्रॉनिक मध्यम से मतदान के मध्यम से किया जा सकता है।

च्या रिवेट ई-वेटिंग प्रारंक होने की तिथि और सबत फोलबार, **25 मिसंबर 2023 प्रायः 19.00 को (कांप्सिटी)** बा रियोट ई-वॉटिंग समन्त होने की तिथि और समग्र **कुंबराय, 27 मियन्य 2023 को बान् स्वयुक्तवे(नार्यरसटी)।** 🗨 इलेक्ट्रोनिक पास्पप से या एजीएप में फारदान करने की बादता निवारित करने की ओतिप तिथि **पुरुष्या**र 🚁

PHOPE 2023 🔻 सदस्यों का पतदान अधिकार **पुरुष्कर, 21 नियंतर 200**3 की कट—ऑक तिथि के अनुसार कंपनी की खकता इंटिक्टी हेवर क्वी के उनके शेवर्व के अनुवात में होगा।

ଲ ଚୌର୍ଣ୍ଣ भी व्यक्ति जो क्वेबी के शेवर अन्त करता है और बैठक की सूचना भेजने के बाद क्वेबी का सदस्य बन जाता। है और कट-ऑक तिथि वानी **बुक्याप 25 निवांनर 2023** के अनुसार शेवर रखता है, वह beetal@beetalfinancial.com पर अनुरोध केवलर अपना एवर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। uदि सदस्य वस्ते से ही \$-वोटिंग के लिए सीब्रीएसएस के साथ वंजीकृत है तो वह रिवोट \$-वोटिंग के वस्ताव से बतदान के लिए अपने मौजूदा एजर आईडी और वासवर्ड का उपवोग कर सकता है।

क. पूरुवार 27 मिलंबर 2023 को साम 5.00 बजो के बाद रिपोट ई—बेटिंग की अनुपति नहीं दी जाएगी। 👊 एजीएन में बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिस्लोंने ई—बोटिंग की बहुएय से अपना बोट नहीं अला है वे केवल में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।

🚛 सदस्य द्वारा रिषोट ⊱ वोटिंग के पाध्यप से बोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वह आवी एजीएप में भाग से सकते हैं सेकिन उन्हें फैठक में दोबाठ बोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इदू एक व्यक्ति, जिसका वन कट–ऑक तिथि वर सदश्यों के उजिस्टर में या डिवॉजिटर्ड में रखे गए लाभवीं मलिकों के रिजिस्टर में दर्ज है, केवल वह ही एजीएन में बतदान के साथ-साथ रिबेट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने

ह, कंपने ने निष्पक्ष और पारवर्शी तरीकें से \$-बोर्टिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए एसपीबी एंड कंपने, कंपनी सिप्तक (कर्ष कंजीकरण संख्या +2020एची 723600) हैसंगाना को कंवनी के सहित्रीए सेखा वरीधक के रूप में संबीधक नियुक्त

5, 30वीं एकीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.sudov.co.in के सथ—साथ स्टॉक एक्सकेंत्र की वेबसाइट

www.bseindia.com 97 3984 \$1 🔍 पुढ़ि आपको वाल एकीएम में भाग लेने आंर ई-वोटिंग लिस्टम ले ई-वोटिंग के लंबेंट में कोई दरम पा लगरण होतो आप www.enotingindia.com वर सर्वाता अनुभाग में तरत वर उवलय अस्तर वृत्ते अने असे ११२ (एक्स्क्यू) अंट ई—बोर्टिंग पंद्रास्त देख समते के वा helpdeskevoting@edslindia.com वर एम ईमेन लिखें वा थी नितिन मुंदर

(१४२-२३१६४) सा भी पेरुप् लखानी (१४२-२३१६४६४) स भी राजेश दलती (१४२-२३१६४६४) से संबर्ध करें। मापका विश्वमी. पुरेव वंक्पृतिक सिमिटेक TWE /-ऋगिका वसेमच भव्यक्त मंचक्य 43401

रिफांक 00 निरांक, 2023 कंपनी पापित एवं अनुस्थान अधिकारि प्रचल जेरच

सबरोगाला इडस्ट्राज इंडिया CIN:L74110DL1984PLC018467

पंजी. कार्या. ७०६, डी-माल, नेताजी सुभाध प्लेस, नई दिल्ली-110034 फीन : 011-41514958, ई-मैल: es@sabrimala.co.in, वेबसाईट: www.sabrimala.co.in

39वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग तथा

पुस्तक बंद होने की सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कप्पनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आप सभा शुक्रवार, 29 सितप्बर, 2023 को 11.00 बने पूर्वा. में बिडियो कान्क्रेसिंग ("बीसी'')/अन्य आडियो विजुअल पाप्यपों ('' ओएवीएप'') डारा आयोजित की जाएगी जिसमें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय डारा जारी सर्क्युलर्स (''एपसीए सर्क्युलर्स'') के साथ पटित अभिनियम के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में एजीएप की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एतदृद्वारा सदस्यों को सुचित किया जाता है कि सभा तथा उपरोक्त दस्तावेज कप्पनी की वेबसाईट (www.sabarimala.co.in) तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

उस पर ऑडिटरों के रिपोर्ट तथा निदेशकों के रिपोर्ट के साथा 31 पार्च, 2023 को सपाप्त बित्त वर्ष के स्टैंडएलॉन एवं संपेकित अंकेकित वित्तीय विवरणों के साथ सभा में निष्पदित होने वाले साधारण तथा विशेष व्यवसायों से युक्त सभा के सुचना की भौतिक प्रति ऐसे सदस्यों को डाक डारा उनके संबंधित पंजीकत पते पर भेज दी गई है जिनके ईंधेल आईडी कप्पनी/कप्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अंतरण के पास पंजीकृत नहीं कराये हैं तथा इलेक्ट्रोनिक रूप से ऐसे सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कट-ऑफ तिथि 01.09.2023 को कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्टरा के पारा पंजीकत हैं। जो सदस्य भौतिक पद्धति में शेयर भारित करते हैं तथा जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास पंजीकृत

नहीं हैं, से अनुरोध है कि अपने नाप, सप्पूर्ण पते, फोलिओ नप्बर कप्पनी में धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए सदस्यों द्वारा विभिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ। पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति तथा अभीतिखित किसी एक दस्तावेज जैसे आभार कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पास्पोर्ट, उपयोगिता बिल अथवा कप्पनी में यथा पंजीकृत सदस्य के पते के प्रपाण के सपर्थन में किसी अन्य सरकारी दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित स्कैन। की गई प्रति यथा शीघ्र भेजकर अपना ईंपेल पता पंजीकृत करा लें। डिपैट पद्धति में शेयरभारित करने वाले सदस्य अपने दिपोजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपना ईंपेल पता अध्यतन का सकते। हैं। इमेल पते के पंजीकरण में किसी प्रकार की रामस्या के लिये सदस्य admin@skylinerta.com पर कप्पनी के आरटीए को लिख सकते हैं।

सदस्यों द्वारा पतदान करने (ई-वीटिंग) की सुविधा सेन्ट्रल डिपॉनिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिपिटेड डारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा उसके लिये विस्तृत प्रक्रिया एजीएप की सूचना में दी गई है। रिमोट ई-बोटिंग सुविधा पंगलवार, 26 सितप्बर, 2023 को 9.00 बजे पूर्वी. में (आईएसटी) में शुरू होगी। तथा गुरुवार, 28 सितप्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार, 23 शितप्बर, 2023 को शेयर भारिता करने वाले कप्पनी के सदस्य रिपोट ई-बोटिंग अथवा एजीएम के समय में ई-बोटिंग द्वारा अपना पतदान कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएप डारा भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कप्पनी अभिनियम 2013 की भारा 103 के अंतर्गत कीरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

कप्पनी अभिनियप, 2013 की भारा ७१ के प्रावधानों के अनुपालन में आगाणी वार्षिक साधारण राभा के उद्देश्य से सदस्यों के रिनस्टर तथा कप्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें रिववार, 24 सितम्बर, 2023 से भुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 (दोनो दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। राबरीमाला इंडरटीज इंडरटीज इंडिया लिमिटेड के लिये

राधिका तौसनीवाल तिथि: 6.9.2023 रथानः नई दिल्ली (कम्पनी राचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

जीनोमिक वैली बॉयोटेक लिमिटेड पंजी. कार्याः 4 के. एम. स्टोन, बेरी छर्रा मार्ग.

तक्सील-वहाकुरगद्य, जनपद-झण्जर, रुख्याणा-12607 सीआईएनः एसका १२२एकवार १६६४पीएससी१३३४२६ः कुरमादः ६१-६६। १३५ १६४२ केंग्रेस: genomicvalley@gmail.com. विजिद्ध http://www.genomicvalley.com

वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और वही बंद करने की सूचना

एतदहार तृचित किया जाता है कि जीशोभिक वैसी बायोर्टक सिनिटेड के तदस्यों की 20वी वार्षिक आप बैठक

[एजीएन) सनिवार, दिनाक 30 तितम्बर, 2023 को प्रात 1100 बजे कपनी के फ्लीकृत कार्यांत्रय 4 कि.मी. रहोन् बेरी छर्रा पार्ग, वी ओ दखाईखी, तहरील—बहादुरगढ, जनवद—अञ्जर, हरियाणा—12450र मे आयोजित

दिशाक 3103,2023 को रामाप्त विसीय वर्ष की वार्षिक रिवोर्ट को साथ एजीएम की सूचना, उन रामी सदस्यों को भेजा गया है जिल्होंने अपने कजीकृत को पर इसकी भौतिक प्रतिया वागी है और अन्य सभी सदस्यों को ई-वेश को वाध्यव से भेजा गया है, जिनकी ई-वेश आईखी कवाबी/रजिस्ट्रार और ट्रासकर एजेट को पास पजीकृत है और तूबना कपनी की वेबताइट www.genomicvalley.com पर भी उपलब्ध है | कपनी विकास जो र प्रशासन) निवसवली 2014 के निवस 10 को साथ पठित कपनी अधिनिवस, 2013 (अधिनिवस) की भार। 91 और तेबी [तूचीकरण दायिख और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विशिव्यगवसी 2015 के विशिव्य 42 को अनुसार, बक्त भी सुधित किया जाता है कि कवनी को सदस्यों की प्रक्रिका और अञ्च हरतातरण बहिया रविवार

24 शितम्बर, 2023 से सरिवार, 30 शितम्बर 2023 (दोनो दिन सम्बितित) तयन बद रहेगी | रादरबों को एतदहार। रायित किया जाता है कि कवनी विषय और प्रशासन) नियमावसी 2014 के नियम 20 को साथ पठित अभिनियन की भारा 108 के प्राथभानों को अनुपालन ने, कपनी 23.09.2023 किट—ऑक तिथि) को अनुसार भीतिक रूप से या अभीतिक ने सेयर रखने वाले अपने सदस्यों को ई-वंदिन सुविधा उपलब्ध करकर तम्त है ताकि वे रोट्स क्रियोंकिटर्र सर्विरोज (इक्टिया) सिनिटेक (रीक्षिएसएस) हास प्रदान की नई ई—वोटिन तिया को माध्यम ते लोनदेन किए जा तकने वाले अववताय पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ते अपना बोट खालने में तकम डो | ई-बोटिंग को निर्देश एऔं एवं की सूचना में दिए गए हैं | अधिनिधम को प्राथमानों और उक्त निधमायती को अनुसार विवरण नीये दिये गये हैं।

(क) सूचना को प्रेनण की पूर्णता की तिकि पुलवार , वर शिक्षम्बर 2023 (১৯) ई—बोटिन प्रारम अने की तिथि और समय बुधवार 27 तितथार 2023 को प्रांत 900 बजे (ग) ई-वंदिग की समान्ति की तिथि और समय अध्याद 29 दिसंबर 2023 को साथ 500 बजे

जिन सदस्यों को लिए इस्तेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा तक पहुंच नहीं है, उनको लाभ को लिए एजीएन की सुवना को साथ किजिक्क बैसेट कॉर्न भेजा गया है। विभिन्न पूर्ण भीतिक प्रतपन्न 29 दिसंबर 2023 को साथ 500 बजो तक या उत्तरो पहले कवनी के प्रजीकृत कार्यालय में पहुंच जाएगा। रादरयाण भ्यान दे कि इसंक्ट्रोंनिक गोड हारा ई-वोटिंग की अनुगति 20 दिसंबर 2023 को साथ 500 बले तक दी जाएगी। कवनी ने निष्यक और पास्त्रजी तरीको से ई-बंदिंग और किलियक वेश ट प्रक्रिया को स्थासन को लिए तबीवका को जान में एतबीआर एक कचनी एलएलची को पार्टनर भी रोडित बाबन कचनी तबिय को

वतपत्र / वोल पेपर को वाध्यव से ई-वोटिय की सुविधा एजीएव स्वल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक वे भाग लेने वाले सदस्य, जिल्होने पहले से ही ई-पोटिंग को शास्त्रम से अपना बोट नहीं छाला है, बैठका में अपने पताधिकार का प्रयोग करने में सबन झोगे। जो सदस्य पड़ते डी रिमोट ई—वोटिंग को मध्यम से अपना बोट दे युकों है, ये बैठका में भाग ले. सकते हैं, लेकिन ये एजीएन में दोबास बोट खाल ने को डकदार नहीं स्रोगे। वार्षिक रिपोर्ट को प्रेमण को बाद लेकिन कर-ऑक तिथि को या उत्तरी पहले कपनी को तदस्य बनने वाले व्यक्ति genomicialley@grail.com पर एक अनुरोध भेजकर युजर आईबी और पातवर्ड प्राप्त कर तकते

हैं। डालांकि, बदि ऐसा सदस्य पडले से डी रिशेट ई-बोटिंग के लिए सीखीएसएल को साथ पानीकृत हैं, तो वह बोट खबर ने को लिए अपने मीजूट। यूजर आई बी और पास वर्ष का उपयोग कर सकता है। इसेक्ट्रॉनिक बंदिन की प्रक्रिया और तरीकों को बारे ने किसी भी शिकायत की रियति ने, सदस्य एजीएन की त्यमा ने दिए गए मिर्देशों को पढ़ सकते हैं या सीखिएसएस की वेबसाइट www.evolingindia.com पर जा राक्त है और खरि आपके पारा ई-पोटिंग को बारे ने कोई प्रश्न या रानस्था है तो आप www.evalingindia.com पर डेश्प रोक्सन को तडत उपसभ्य अवसर पूछे जाने वाले प्रश्न["एक्स्क्यू") और ई– वॉटिंग भैनुञल का सदर्भ से सकते है या helpotesk evoling@cctslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या 1800 22 95 33 पर कॉल कर राक्ते है या भी सक्तेत्र दलवी (622–23058542) से सपर्ककार सकते हैं इसेक्ट्रॉनिक मध्यम से मतदान की सुविधा से जुडी सभी जिकायतों को भी सक्च दसवी, प्रकथक, [सीडीएसएस) रोड्स क्रियोजिटरी सर्वितेज (इक्टिया) सिनिटेक, ए विग, 25या तस, नैशव र प्रयुवरेक्स, राजनसास निस क्रायाजकर, एक एव जोशी वार्ग, लोबर परेल (पूर्व), बुबई – 400013 को सबोधित किया जा सकता है। सदस्यगण उत्पर वरिक्षिक ई-पेक आईडी अर्थात् genomickalley@gmail.com या प्रजीकृत कार्याक्षय के पते पर कपनी त्रियेव को भी लिखातकाते हैं।

बेर्ड के आवेशानुसार कृते जीनोमिक वैसी बॉयोटेक सिमिटेक हस्ता /-

योगेश अग्रवास अध्यक्ष एवं अबंध निवेशक

भारतीय स्टेट बैंक

एसएमई सेन्टर, 65, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद (15651) **ओ रिक-39220341306**

[नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पति के लिये)]

जैसा कि, वित्तीय परिसप्पत्तियों के प्रतिपुतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिपुति हित प्रवर्तन अधिनियप, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेंट मैंक के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमाधली, 2002 के नियम 3 के साथ परित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरताभरी ने माग सूचना तिथि 17.03.2023 जारी कर ऋगधारक श्री रिकू सिह, पुत्र श्री चतुर रिस्ह, मकान स. 517, 45 फीट रोड, भारत कॉलोनी, खेरी कलान, फरीदाबाद-121002, हरियाणा को को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के पीतर सूचना में धर्णित सीश 17.03.2023 को 🕏 19,14,681/- (स. उनीस लाख बौदह हजार छः सौ इक्यासी मात्र) तथा अन्य बार्जेज एवं ब्याज वापरा थापरा लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को बापस लौटाने में बिफल रहे, अतः एतदृहारा ऋणधारक/गारटर तथा आप जनत। को सुचित किया जाता है कि आज, 4 सितप्बर, 2023 को अधीहरताश्वरी ने उक्त नियपाधली के नियप ४ के साथ परित अधिनियप की धारा 13(4) के अतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरताभरी ने यहा नीचे वर्णित राप्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

भिशेष रूप से ऋणधास्की/गास्टरी तथा आप जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि ये यहा नीचे र्धार्णित राप्पत्ति का ध्यधराय न करें तथा इन राप्पत्तियों का किसी भी तरह का ध्यधराय इस सूचना में चर्णित राशि के लिये भारतीय रटेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। बैंक को देय आपकी देयता (कुल) रु. 19,14,681/- (उन्नीस लाख चौदह हजार छः सौ इक्यासी पात्र) 17.03.2023 को

वाहन का विवरण

तथा उस पर अन्य चार्जेज, लागत आदि है।

पीटर बाहन-बॉडी टाइप-टाटा पोटर्स लि. पॉडल नाप-अल्ट्रा 1412497CR/45WB, चैसिस नं. MAT 787152L7B03207 इंजिन नं. 497TC41BZX8061303975 पंजी सं. HR38 AB3750 तिथि: 03.09.2023, स्थात: फरीटाबाट भारतीय स्टेट बैंक



[सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 🛭 1) के अंतर्गत]

जैसा कि, शितीय परिसम्पतियों के प्रतिभृतिकरण एशं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रशतन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट शैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रयर्तन) नियमायली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त राव्चियों का प्रयोग करते हुए अधीहरताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 17.03.2023 जारी कर ऋगधारक श्री राम चन्दर, पुत्र श्री प्रभु, मकान सं. यू-245, भगत सिंह कॉलोनी, एनएच-5, एनआईटी, फरीदाशाद-121001, हरियाणा को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में अर्णित राशि 17.03.2023 को रू. 20,24,0627- (रू. बीस लाख बीबीस हजार बासठ पात्र) तथा 17.03.2023 से ब्याज यापस लीटाने का निर्देश दिया था।

ञ्चलक्षारक इस राशि को भापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वार ञ्चलक्षारकश्मास्टर तथा आप जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 4 सितप्त्रर, 2023 को अधीहस्ताक्षरी ने ठक्त नियमाशली के नियम 5 के साथ पंडित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे शर्णित सप्पत्ति का कक्ष्मा कर लिया है।

िरोष रूप से ऋणधारको/पारंटरों तथा आप जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि ये यहाँ नीचे यर्षित सम्पति का स्यवसाय न करें तथा इन सम्पतियों का किसी भी तरह का व्यवसाय इस सुबना में पर्णित राणि के लिये भारतीय स्टेट चैंक के चार्ज के अधीन होगा। अँक को देश आफ्की देयता (कुल) रू. 20,24,062/- (भीस लाहा चौधीस हजार बासर पात्र) 17.03.2023 को तथा अन्य चार्जैज तथा उस पर ब्याज है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मोटर बाहन-ऑडी टाहप-टाटा मोटर्स कि. मॉडल नं.-टाटा LPT1512CRX48WB BS IV, चेसिस नं MAT544066L7A01480 इंजिन नं. 497TC41AZX802582 विजी सं. HR38AB4235

स्थानः फरीदाषाद भारतीय स्टेट चैंक पैरामाउण्ट कम्यनिकेशन्स लि.

लीआई एनः एक १४८५५ होएक १५५४मीएक खेळ १२५५ पत्री, कार्यालयः केरच-433, मीलग्रारी एवेन्द्र, बेस्ट एंड गीना, रंबपुरी, वहं दिल्ली-110037 फोन: 011-45618800, फैक्स: 011-25893719/20

CABLES

हंगेरमः gel@garamounicables.com, येषसहेटः www.garamounicables.com

वीसी (विडियो कान्फ्रेसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों) से आयोजित की जाने वाली पैरामाउण्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड की 29वीं वार्षिक आम सभा की सूचना एतदृडारा सूचना दी जाती है कि पैरामाउण्ट कप्युनिकेशन्स लि. के सदस्यों की 29 वीं वार्षिक

आप बैठक (एजीएप) गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को 11.30 बजे पूर्वा, वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी)/अन्य ऑडियो विज्ञल पीन्स ("ओएवीएप") के पाप्यप से आयोजित की जानी अनुसुचित है। कार्पोरेट कार्य पंजालय डारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022 दिनांकित क्रपशः 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 पई 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर 2021 और 14 दिसंबर 2021 तथा 5 पई, 2022 क्रपशः और परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 के अनुसरण पें (यहां इहापें इसके बाद सामृहिक रूप में "एपसीए परिपजें" के रूप में संदर्भित} और 'होबी-परिपत्र सं. सेनी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 तथा कार्पोरेट कार्य पंत्रालय (एपासीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) डारा निर्गत रापस्त अन्य लागुयोग्य और परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में होगी जिरामें एजीएम की सुचना में वर्णित सामान्य और विशेष व्यवसायों का निष्पादन किया जाएगा। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात् केएच-433, पौलसरी एवैन्यू, वेस्टएन्ड ग्रीन्स, रंगपुरी, नई दिल्ली-110037 को एजीएप के उद्देश्य से आयोजन स्थल पाना जायेगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक आप राभा की सूचना, निदेशकों का रिपोर्ट, ऑडिटरों का रिपोर्ट तथा 31 पार्च, 2023 को सपाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तथा रिपोट ई-वेटिंग के विवरण इलेक्ट्रानिक पाध्यपों से ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी, कप्पनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के पास पंजीकृत हैं। शेयरधारकों को बार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएप

की सूचना का ईमेल भेजने की पूर्णता तिथि 6 सितप्बर, 2023 थीं। ्यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है तो कृपया वित्तीय वर्ष 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिये लॉगिन विवरण प्राप्त करने

के लिये अपनी ईंपेल-आईडी पंजीकृत करने के लिये नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:-अभौतिक | शेयरभारकों से अनुरोभ है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) की दी गई सलाह के आधार पर नियत प्रक्रिया के अनुसार अपने डीपीट खाते में अपने विवरण

पंजीकृत/अद्यतनीकृत करें। रोमरधारको हो अनुरोध है कि ये कंपनी की 29 याँ याषिक आप भैठक के उद्देश्य के लिए अपनी ईपील आईडी, पोब्राहल नंबर शैंक खावे का विवरण और / या अन्य विवरण फॉर्प-

आईएराआर- 1 में और रोबी द्वारा निर्धारित अन्य प्रारामिक फॉर्म में भरकर कंपनी के रजिखार

और ड्रांसफर एजेंड, पेसर्स लिंक इनडाइप सेंड इंडिया प्राह्मपेट लिपिटेड नोमल डाइट्स पहली पंजिल, फ्लॉट नंशर एनएच-2, सी- 1. अलॉक, एलएससी, जनकपुरी, नई दिल्ली-110053, दरभाषः ०११-४१४१० ५२८/९३/९४ टेलीफैक्सः ०११ - ४१४१० ५१, ईपेल आईडीः kye@linkintime.co.in वैबसहट www.linkintime.co.in के पास प्रस्तुव करें। हरा संदर्भ में सेवी द्वारा निर्दिष्ट संभीधरा प्रपन्न Investor Services-kyc compliance के अंतर्गत आरटीए की केशराईट www.linktime.co.in पर उपलब्ध है तथा साथ ही शेयरधास्कों की जानकारी तथा, उपयोग के लिये कम्पनी की वेबसाईट www.paramountcablas.com/updates पर भी उपलब्ध है। आप से आग्रह है कि कपया इसकी ध्यान रखें तथा समय पर अपना विधारण अद्यतन करा हों।

कप्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियपावली, 2014, यथा संशोधित तथा सेवी (सूचीधन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियपन, 2015 के विनियपन 44 के साथ पटित कप्पनी अपिनियप, 2013 की भारा 10% के प्रावधानों के अनुपालन में इलेक्ट्रोनिक रूप से मतदान करने में उन्हें सक्षप बनाने के लिये सदस्यों को ई-बोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कप्पनी ने आरटीए अर्थात लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिपिटेड की सेवाएँ प्राप्त की है। रिपोर्ट ई-वोटिंग अविध सोपवार, 25 सितप्बर, 2023 (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा बुधवार, 27 सितप्बर, 2023 (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं रामय के बाद ई-बोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद पतदान के लिये ई-बोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सुचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं और कप्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात २१ सितप्बर, २०२३ को शेयर भारित करते हैं, वे enatices@linkintime.ca.in

पर अनुरोध धेजकर लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य द्वारा किसा प्रस्ताव पर एक बार पतदान कर दन के बाद उन्हें उसप पारवतन का अनुपार नहीं दी जाएगी। एजीएम में ई-बोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग डारा मतदान किये होने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्तु ये पुनः पतदान के लिये अभिकृत नहीं होगे, ई-बोटिंग प्रक्रिया के लिये अभिशेक पित्तल एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कप्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफ 7273 एवं सीपी नं. 7943) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रिपोट ई-बोटिंग की विरुत्त प्रक्रिया एजीएप की सूचना में

संलग्न टिप्पणी में दी गई है। ५. हेल्पडेस्कः डिपैट पद्धत्ति में प्रतिभूतियाँ भारित करने वाले वैयक्तिक शेयरभारकों के लिये हेल्पडेस्कः यदि शेयरभारक/सदस्य जो डिपैट पद्धति में प्रतिभृतियां भारित करते हैं को डिपोजिटरी अर्थात-एनएसडीएल/सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित कोई तकनीकी समस्या हो तो वे नीचे दिये गये संबंधित हेल्प डेस्क से राप्पर्क कर सकते हैं:

लॉगिन टाइप हेलाडेसक का विवासम लॉपिन में तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्यपण एनएसडीएल पें प्रतिभृतियाँ evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल थारित करने वाले वैयक्तिक हेल्पडेरक से सम्पर्क करें अथवा 022-48867000 सथा शेथस्थास्को 022 - 24997000 पर कॉल करें।

लॉगिन में राकनीकी रापस्या का सामना करने वाले सदस्यगण सीडीएसीएल में प्रतिभृतियाँ helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर थारित करने वाले वैयक्तिक रीडीएरएएए डेल्पडेस्क से सम्पर्क करें अथवा टोल की नं. शेथस्थास्को 1900225533 पर कॉल करें।

भौतिक पद्धति में प्रतिभृतियाँ धारित करने वाले वैयवितक शेयरधारकों के लिये हेल्पहेरक: लॉगिन में तक नीकी रामस्या का सामना करने वाले सदस्यगण enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लिंक इन्यहम इन्स्याबीय हेल्पडेरक हो सम्पर्क करें अथवा देली.: 022-49136000 पर सम्पर्क करें।

कप्पनी अधिनियम, 2013 की बारा 191 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रायधानों के साथ पठित रोबी (सूचीयन दायिला तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदरमों के रिजरटर तथा कप्पनी की शेमर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 से पुरुवार 23 हिराज्यर, 2023 (दीनो दिवस सहित) तक वार्षिक आप सभा में शेयरधारकों का अभिनेक प्राप्त करने के उद्देश्य से बंद रहें गे।

. एजीएम की सुचना तथा यार्षिक रिपोर्ट कप्पनी की वैधासाईट www.paramountcables.com, स्टॉक एक्सचैंजो (एनएसई एसं ऑएसई) को येधसाईटो तथा लिंक इन्टाइम येधसाईट instavote-Linkintime पर भी उपलब्ध होंगे।

> कृते, पैरापाउण्ट कप्युनिकेशन्स लिपिटेड राशि पोबल

तिथि: 07 सितम्बर, 2023 स्थानः नई दिल्ली

www.readwhere.com

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 07.09.2023

अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं (उन्तालिस बीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) शनिवार 30 सितम्बर 2023 को 09.30 बजे पर्वा. में

"एस–524, 1ला तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली–110092" में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सूचना, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ शुक्रवार, 01 सितम्बर 2023 को पंजीकाओं में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी गई है, में वर्णित व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा। कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिरटर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां शनिवार 23 सितम्बर 2023 से शनिवार 30 सितम्बर 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगी। अधिनियम की वारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा साधारण सभा पर सचिवालयी मानक के मानक—2 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह कंपनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("रिमोट ई—वोटिंग") द्वारा अपने

मताविकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड

(CIN:L65100DL1984PLC018748)

चंजी, कार्या, : एस-524, 1ला एस, विकास मार्ग, शकरपुर, दिस्सी-110092

 रिमोट ई—वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः ब्धवार, 27 सितम्बर, 2023 (9.00 बजे पूर्वा.)

 रिमोट ई—वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 (5.00 बजे साय)

 मतदान की पात्रता स्निरिचत करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 एजीएम में, सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों को, मतपत्र द्वारा मतदान

की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं, वे भी सभा में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वे सभा में अपने मताविकार का प्रयोग करने

में सक्षम नहीं होंगे। एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.abhinavleasefinltd.in एवं

सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। वदि ई—वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप www.evotingindia.com के सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध तीव्रतापूर्वक पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई—वोटिंग मैन्यूअल देख

सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर

सकते हैं।

विनांकः 06.09.2023

स्थानः विल्ली

हस्ता./-ममता अग्रवाल प्रबंब निवेशक

THE PERSON NAMED IN

अभिनदा लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड

Kattanindia

रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड

(CIN: L74110DL2010PLC210263) पंजीकृत कार्यालय: पाँचवीं मंजिल, टावर-बी, वर्ल्डमार्क । एरोसिटी नई दिल्ली -110037 फोन :011-46611666 फैक्स : 011-46611777

13वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सुचना एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि, रत्तनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड (कंपनी) की 13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शक्रवार, दिनांक सितम्बर 29, 2023 को शाम 4:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज्ञअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा

वेबसाईट: www.rattanindia.com, ई-मेल: rel@rattanindia.com

के माध्यम से शेयरधारकों की एक सामान्य जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित को जाएगी। सामान्य परिपत्रों संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के साथ अन्य संबंधित परिपत्रों के साथ पठित, सामान्य परिपत्र संख्या सहित 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक: 05 मई, 2022 और 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 पंडित ("एमसीए परिपत्रों") और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के रूप में संदर्भित के साथ पठित सेबी परिपत्र संख्या के अनुपालन में बुधवार , दिनांक सितम्बर 06, 2023 के एजीएम नोटिस

13वीं एजीएम नेटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं। कंपनी ने एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्टार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी के पास कट-ऑफ तारीख यानि मुरूबार, दिनांक सितम्बर 07, 2023 को पंजीकृत हैं उन्हें एजीएम की सूचना तथा 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 01, 2023 को भेजी जा रही है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण भी गुरूखार, दिनांक सितम्बर 07, 2023 को पूरा

में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेतु एजीएम बुलाई गई है। एजीएम की कार्यवाही के

लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 समय -समय पर संशोधित के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), के विनियम 44 के अनुसार कंपनी का रिजस्ट्रार और स्थानांतर एजंट, केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड (केफिन) के द्वारा नोटिस में सुचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रहा है । इलेक्ट्रोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता (भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर) नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ तिथि शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 22, 2023 रहेगी । दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में इलेक्टोनिक वोटिंग की प्रक्रिया निर्देश लॉगिन क्रेडेशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित उन शेयरधारकों के लिए जिनके ई-मेल कंपनी आरटीए या उनके संबंधित डीपी के

साथ पंजीकृत नहीं है वह एजीएम नोटिस में निहित है ।

एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाईट www.rattanindiapower.com तथा https://evoting.kfintech.com (केफिन के द्वारा ई-बोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाईट) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है । दूरस्थ ई-वीटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक सितम्बर 26, 2023 को सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगी और गुरूवार, दिनांक सितम्बर 28, 2023 को शाम 5.00 बजे (IST) समाप्त होगी । दुरस्थ ई-मलदान मॉड्यूल को उसके पश्चात मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा । किसी भी सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पशात उस सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी कोई भी व्यक्ति जो उक्त नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, तो वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं । जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है और वह अन्यथा ऐसा करने से विचित नहीं हो तो वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वह भी वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता हैं, लेकिन उसको फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीसी/

ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रोनिक बोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-बोटिंग और एजीएम में ई-बोटिंग दोनों) करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव

श्री ,संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है । एतद्वारा सुचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित के नियम 10 के अनुसार तथा सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 42 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी के शेयर ट्रान्सफर पुस्तक शनिवार, सितम्बर 23, 2023 से शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रेहेंगी।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी कष्ट के लिए सदस्य श्रीमती सी शोधा आनंद, उप-महाप्रबंधक, केफिन टेनोलोजिज लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1800-345-4001. तथा evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते है तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड, (युनिट : रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, गाचीबावली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500 032, तेलंगाना पते पर भी लिख सकते है ।

कृते रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड

संख्या (ईपीएसएन)

ई-वोटिंग के सब्ध में किसी भी प्रश्न के मामले में, www.evotingindia.com

कंवाईसी विकरण का अद्यतनीकरण

हस्ता /-बी.कं. जैन

बीआईएन: 00029782

विनांक : 07-09-2028

अनुपालन अधिकारी एवं कप्पानी सविव



सही/-

स्थानः नई दिल्ली

राजेश अरोरा

कपनी सचिव